



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रस्तावधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुध्दिवार, फरवरी 20, 1969/फाल्गुन 1, 1890

No. 63] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 1969/PHALGUNA 1, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION

(Copyright Office)

ORDER (COPYRIGHT)

New Delhi, the 20th February 1969

S.O. 735.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the International Copyright Order, 1958, namely:—

1. This Order may be called the International Copyright (First Amendment) Order, 1969.

2. In the International Copyright Order, 1958, in Part II of the Schedule, after the entry "Malawi" the entry "Malta" shall be inserted.

[No. F. 3-1/68-C.O.]

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

शिक्षा मंत्रालय

(कापीराइट कार्यालय)

आदेश (कापीराइट)

नई दिल्ली, 20 फरवरी 1969

एच० ओ० 736.—केन्द्रीय सरकार, कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट, 1958 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :—

1. यह आदेश अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (प्रथम संशोधन) आदेश, 1968 कहा जाए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश, 1958, अनुसूची के भाग II में, प्रविष्टि 'मालावी' के बाद प्रविष्टि 'माल्टा' जोड़ दिया जाए।

[सं० एफ० 3-1/68 सी० ओ०.]

कान्ति चौधरी, संयुक्त सचिव।